

यूपी: ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बनाते थे नकली जींस, पुलिस ने पकड़ी तीन फैक्टरी, सामने आया पूरा खेल

संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 09 May 2022 08:10 PM IST

सार

ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली जींस बनाने वाली तीन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मौके से 473 जींस और 489 टैग बरामद किए हैं।



सहारनपुर जनपद में देहात कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली जींस बनाने वाली तीन फैक्टरी पकड़ी है। तीनों फैक्टरी से 473 जींस और 489 टैग बरामद हुए हैं। कंपनी के अधिकारी और पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि देहात कोतवाली प्रभारी मनोज चहल को एक कंपनी के गुरुग्राम से आए अधिकारी आकाश शर्मा ने कंपनी के नाम पर क्षेत्र में नकली जींस बनाकर बाजार में सप्लाई करने की जानकारी दी।

इसके बाद पुलिस टीम ने कृष्णा कॉलोनी में फैक्टरी मालिक मोनू के यहां से कंपनी का फर्जी टैग लगाकर जींस का निर्माण होते पाया। इसी तरह हनुमाननगर कॉलोनी में मालिक मन्नान के द्वारा भी कंपनी के फर्जी टैग लगाकर जींस बनाई जा रही थी। इसके अलावा ग्राम नाजिरपुरा में फैक्टरी मालिक सर्वेश निवासी नाजिरपुरा कंपनी के टैग लगाकर नकली जींस बना रहा था। तीनों के यहां से पुलिस ने नकली टैग लगी 473 जींस और 489 टैग बरामद किए हैं। किसी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके पर काम कर रहे लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। आरोपियों के खिलाफ देहात कोतवाली में कॉपीराइट अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/saharanpur/saharanpur-police-have-busted-three-factory-and-was-making-fake-jeans-with-use-name-original?pagel=1>